





## संक्षिप्त समाचार

## लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी



**दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** उपायुक्त द्वारा कार्यालय कक्ष में जन शिकायत निराकरण का आयोजन किया गया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आये लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। इस दौरान प्राप्त आवेदनों व शिकायत पत्रों के त्वरित निष्पन्न हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को भेजा गया। आयोजित जन शिकायत निराकरण में कई विषयों यथा- कार्य के विरुद्ध राशि का भुगतान, जमीन पर अवैध कब्जा, पीपीएस दुकानदार द्वारा राशन वितरण में अनियमितता, अतिक्रमण धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा, रोजगार सृजन एवं आवास निर्माण आदि से संबंधित मामलों भी आए जिन्हें त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को भेजा गया।

## पीड़ित परिवार से मिले भाजपा सांसद



**दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** जर्मुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भालकी के भरतपुर में बीती रात एक सनकी और शादीशुदा आशिक द्वारा एक युवती को पेट्रोल छिड़ककर जियां जलाये जाने और बाद में उसकी मौत के बाद पीड़ित परिवार से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने शुक्रवार को मुलाकात की। सांसद ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। इससे पूर्व स्थानीय परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने पीड़िता के परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। सोरेन ने कहा कि पीड़िता के बेहतर इलाज के लिए तत्काल 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने के साथ ही उसके इंसफ के लिए पार्टी लड़गी। सांसद ने राज्य की हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि भालकी के भरतपुर गांव में एक युवती को पेट्रोल छिड़ककर जियां जलाये जाने का मामला काफी निंदनीय है। हाल के दिनों में यह दुमका में तीसरी घटना है। कहा कि घटना में सॉलिट आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा देने की मांग करता हूँ।

## गोपीकांडर में पहली बार की गई कोयला ढुलाई में लगे हाईवा की सघन जांच

## ● एसडीपीओ एवं डीएमओ के नेतृत्व में चलाया गया जांच अभियान



**दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर पहली बार गोपीकांडर में कोयला ढुलाई में लगे हाईवा की जांच की गई। जांच टीम में डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू, एसडीपीओ नूर मुस्तफा, थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता शामिल रहे। जांच टीम ने शुक्रवार को दुमका-साहिबगंज मुख्य मार्ग के जीतपुर मोड़ के पास हाईवा वाहनों की जांच शुरू की। डब्ल्यूबीपीडीसीएल के लिए कोयला ढुलाई में लगे हाईवा वाहनों के रजिस्ट्रेशन, चालक का लाइसेंस और ओवरलोड की जांच की गई। जांच में पकड़े गए सभी हाईवा वाहनों को छत्रचुआं क्रशर में लगे काटा में वजन किया गया। थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता ने बताया कि सभी वाहनों में सामान्य कोयला लदा हुआ पाया गया है। चालकों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जांच की गई। जांच में फिलहाल सभी वाहन सामान्य मिले हैं, लेकिन सूचना है कि ओवरलोड और बैगै लाइसेंस के वाहन कोयला ढुलाई में लगे हैं। मौके पर एसडीपीओ नूर मुस्तफा, डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू, पुलिस अवर निरीक्षक अंजनी कुमार, थाना प्रभारी तथा पुलिस बल के जवान उपस्थित थे।

## दुमका में पेट्रोल डाल जिंदा जलाई गई लड़की की मौत, शादी से इनकार की खौफनाक सजा, आरोपी युवक गिरफ्तार

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** झारखंड के दुमका में शादी से इनकार पर पेट्रोल छिड़क जलाई गई युवती की मौत हो गई है। बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजी गई पीड़िता की वहां पहुंचते ही मौत हो गई। जर्मुंडी के भालकी गांव में एक 19 वर्षीय युवती मारुति कुमारी को पेट्रोल डाल कर जला दिया गया। आरोपी युवक राजेश राउत को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मारुति की हत्या पर शोक जाहिर करते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि झारखंड के दुमका में ही पिछले दिनों एक और लड़की को इसी तरह शाहरूख नाम के आरोपी ने शादी से इनकार



पर जलाकर मार डाला था। यंहा बता दे की राजेश और मारुति के बीच पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब दोनों में ब्रेकअप हो गया था। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया



था। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला राजेश राउत की इसी साल किसी दूसरी लड़की से शादी हो चुकी है। इसके बाद भी वह मारुति कुमारी पर



शादी करने का दबाव बना रहा था। मारुति कुमारी जामा के भैरवपुर गांव की रहने वाली है। वह अपने नाना किशन रावत के घर भालकी गांव के भरतपुर टोला में आई थी। गुरुवार

की देर रात करीब एक बजे मारुति के नाना के घर में ही पेट्रोल डाल जला दिया। गंभीर रूप से घायल मारुति कुमारी को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसे रिम्स रेफर किया गया था।

## ● सीएम ने किया मदद का ऐलान-

सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, "दुमका के जर्मुंडी की मारुति ब्रिटिया के निधन की दुःखद खबर से मर्माहत हूँ। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुःख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दिवंगत ब्रिटिया के परिजन को रु 10 लाख की सहायता राशि देने हेतु

निर्देश दिया है।"

## ● सीएम बोले- सब जगहों की है जानकारी, काम कर रही पुलिस-

इस बीच सीएम हेमंत सोरेन से जब पत्रकारों ने इस घटना को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, "दे-खिए मुझे खबर है, सब खबरों की जानकारी है। दुमका की, कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी है। आपको मालूम है कि कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने अपराध किया है उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा प्रयास है कि हम सरकार, पुलिस, प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से करें। और जो गुनाह करे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।

## पेट्रोल कांड की शिकार मृतका के घर पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री बादल

परिजनों से मिलकर दिया हर संभव मदद का भरसा, मामले में राजनीति भी तेज

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** जर्मुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में एकरफा प्यार में सनकी युवक ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर स्थिति में झुलसी युवती मारुति कुमारी को दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स ले जाया जा रहा था इसी दौरान रास्ते में युवती की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित भालकी गांव पीड़िता के घर पहुंचे जहां कृषि मंत्री ने परिजन से मिलकर सरकार की ओर से मदद देने की बात की साथ ही बिपक्ष को राजनीति नहीं करने की सलाह देते हुए कहा कि इस समय राजनीति



करने की जरूरत नहीं है। सामाजिक मदद करने की जरूरत है। सरकार संवेदनशील है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कठोर कदम उठायेगी।

## ● सरकार कहा है लगातार महिला निशाना बन रही है-डॉ. सुईस मरांडी-

वही बीजेपी की पूर्व मंत्री डॉ. लु-ईस मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कहां

है लगातार महिला निशाना बन रही है। दुमका में महिला असुरक्षित हो गई है। अगर हमलोग बोल रहे हैं तो सरकार राजनीति करने की बात बोल रही है। आये दिन दुमका में घटनाएं घट रही हैं। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपया की मदद से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन अपराधों को हलके में ले रही है। इससे दुमका जैसे शांत जिले

## झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट, फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को दिलाएं फांसी: सुनील

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** 40 दिनों के भीतर फिर झारखंड की उपराजधानी दुमका में पेट्रोल कांड हुआ। पेट्रोल कांड की दूसरी घटना के बाद दुमका भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने चिंता जताई है। भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि इस घटना से वे मर्माहत हैं। दुमका परिसर में उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, सांसद ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। इस मामले में दुमका सांसद ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट है। अपराधियों में कानून का खोफ नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन अपराधों को हलके में ले रही है। इससे दुमका जैसे शांत जिले



में अशांति का माहौल बन गया है। सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि आरोपी राजेश राउत के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी कर उसे फांसी दिलानी चाहिए, इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से पीड़िता को एयर एंबुलेंस से बाहर ले जाकर बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था करने की भी मांग किया था पर रांची रिम्स में पीड़िता की मौत हो गयी। सांसद ने पीड़िता के

परिजनों के लिए राज्य सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। दुमका सांसद ने कहा कि दुमका में पिछली बार जो पेट्रोल कांड हुआ था या फिर एक आदिवासी लड़की जिसे मार कर पेड़ से टांग दिया गया था, दोनों मामलों में भाजपा ने उन दोनों से पीड़िता को एयर एंबुलेंस से बाहर ले जाकर बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था करने की भी मांग किया था पर रांची रिम्स में पीड़िता की मौत हो गयी। सांसद ने पीड़िता के

## किशोरी को जलाने की घटना में प्रयुक्त बोतल व लाइटर बरामद

## एसपी के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** गुरुवार की रात एक बजे भरतपुर गांव में 19 वर्षीय युवती को जलाए जाने की लोमहर्षक घटना सामने आई। घटना के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़िता के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी। ग्रामीणों ने एसपी अंबर लकड़ा से आरोपित को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एवं गांव में व्याप्त तनाव की स्थिति को लेकर डीएसपी विजय कुमार, एसडीपीओ शुभेंद्र, जर्मुंडी थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी दयानंद साह, एएसआई तेज बहादुर, अनुज सिंह, विधी ओपी थाना प्रभारी आकृष्ट अमन, जामा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी भरतपुर गांव पहुंचे। एसपी ने घटना को लेकर



र पीड़िता के स्वजनों से जानकारी लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आरोपित को सख्त से सख्त सजा दिलाए। पीड़िता बाहर निकली तो दरवाजे पर ही दोनों में काफी देर तक विवाद हुआ। इसके बाद पीड़िता के सिर पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। पीड़िता ने जलने के क्रम में ही आवाज देकर नानी एवं अन्य स्वजनों को जगाया। उसके बाद स्वजनों का शोर-गुल सुनकर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जुटे।

मृतक मारुति कुमारी के मामा का घर गांव से थोड़ी दूरी पर एकान्त में है। कपरे को बाहर से खटखटा कर खुलवाया। पीड़िता बाहर निकली तो दरवाजे पर ही दोनों में काफी देर तक विवाद हुआ। इसके बाद पीड़िता के सिर पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। पीड़िता ने जलने के क्रम में ही आवाज देकर नानी एवं अन्य स्वजनों को जगाया। उसके बाद स्वजनों का शोर-गुल सुनकर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जुटे।



**दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर जामा थाना क्षेत्र के लकड़ापहाड़ी गांव के समीप अहले सुबह बंगाल से पोल्ट्री मुर्गी लोड कर बिहार जा रही पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप वैन का ड्राइवर भी घायल हो गया। दुर्घटना में करीब एक लाख रुपए की पोल्ट्री मुर्गी मर गई। घटना के बाद जामा थाना पुलिस ने वैन को जब्त कर थाना ले लाया है। इस घटना में पिकअप चालक सुरक्षित है।

## जेएसएलपीएस के सदस्यों ने घटना को लेकर विरोध जताया

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** जर्मुंडी प्रखंड के भालकी पंचायत अंतर्गत भरतपुर गांव में पेट्रोल डालकर 19 वर्षीय युवती को राजेश राउत नामक लड़के ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था। युवती की रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिलाओं ने आरोपी राजेश राउत को सजा दिलाने के लिए नारा लगाते हुए रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने 108 नंबर पर कॉल करने पर एंबुलेंस से संपर्क नहीं हो पाने की भी बात कही। सखी मंडल के सदस्यों को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द नोनीहा में भी एक एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस रैली में जेएसएलपीएस के महिला सदस्यों के अलावा पंचायत के मुखिया राजमुनि देवी, पंचायत समिति सदस्य शारदा देवी, उप मुखिया जीवन मंडल, जेएसएलपीएस के सामुदायिक समन्वयक टिंकू कुमार मंडल, आईपीआरपी शिंदू शर्मा व अन्य शामिल थे।

द्वारा जेंडर सीआरपी अनीमा देवी के नेतृत्व में निकाली गयी। बता दें कि बीते रात भालकी में मारुति कुमारी नामक 19 वर्षीय युवती को राजेश राउत नामक लड़के ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था। युवती की रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिलाओं ने आरोपी राजेश राउत को सजा दिलाने के लिए नारा लगाते हुए रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने 108 नंबर पर कॉल करने पर एंबुलेंस से संपर्क नहीं हो पाने की भी बात कही। सखी मंडल के सदस्यों को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द नोनीहा में भी एक एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस रैली में जेएसएलपीएस के महिला सदस्यों के अलावा पंचायत के मुखिया राजमुनि देवी, पंचायत समिति सदस्य शारदा देवी, उप मुखिया जीवन मंडल, जेएसएलपीएस के सामुदायिक समन्वयक टिंकू कुमार मंडल, आईपीआरपी शिंदू शर्मा व अन्य शामिल थे।

**हर हर महादेव सेवा समिति**

**भोलेनाथ, माता पार्वती के असीम कृपा से प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क गंगाजल का वितरण।**

**निवेदक : प्रमोद कुमार राउत**

**संपर्क : 6299051313, 9534116246**

## ट्यूशन मास्टर ने छड़ी से पीटा तो घर से भाग गया बालक

## अंडाल से ट्रेन में बैठकर आधी रात में दुमका पहुंचा बालक

## सीडब्ल्यूसी ने ट्यूशन मास्टर को हटाने का दिया निर्देश

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** होमवर्क नहीं बनाने पर जब ट्यूशन मास्टर ने छड़ी से पीटाई करनी शुरू की तो पानी पीने के बहाने 13 वर्षीय बालक कमरे से नीचे उतरा और घर से भागकर अंडाल स्टेशन में ट्रेन में बैठकर दुमका आ गया। गुरुवार के रात एक बजे दुमका रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ को यह बालक मिला जिसे चाइल्डलाइन को सौंप दिया गया। चाइल्डलाइन दुमका के टीम मेंबर निक्कु कुमार ने शुक्रवार को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट के समक्ष इस बालक को प्रस्तुत किया। बालक की मां और दादा भी समिति के समक्ष उपस्थित



हुए। सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन अमरेंद्र कुमार, सदस्य रंजन कुमार

सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय, कुमारी विजय लक्ष्मी और नूतन

बाला ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्यूशन मास्टर को हटाने का

निर्देश देते हुए बालक को उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर भेज दिया। समिति को दिये बयान में बालक ने बताया कि वह छठी कक्षा में पढ़ता है। ट्यूशन मास्टर ने उसे होमवर्क दिया था पर दुर्गापूजा में घुमने में वह होमवर्क बनाना भुल गया। होमवर्क नहीं बनाने के कारण गुरुवार की शाम लगभग 7.30 बजे जब ट्यूशन मास्टर ने छड़ी से उसकी पीटाई की तो वह पानी पीने के बहाने नीचे उतरा और चुपचाप घर से निकल कर अंडाल रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां लगे ट्रेन में बैठ गया। वह पहली बार घर से बाहर अकेले कहीं निकला था। यह ट्रेन जब दुमका आयी तो पुलिस ने उसे अकेला पाकर चाइल्डलाइन को

सौंप दिया। बालक की मां और दादा ने अपने बयान में बताया कि बालक कब घर से बाहर निकल गया, उन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि दादा व दादी मोबाइल में व्यस्त थे जबकि टीचर मान रहा था कि बालक नीचे पानी पीने बजे है। उन्हें दो घंटे बाद रात के नौ बजे बेटे के गायब होने का पता चला। उन्होंने खोजबीन शुरू की तो रात के एक बजे पता चला कि बेटा दुमका रेलवे स्टेशन में मिला है। बालक के पिता बाहर काम करते हैं लिहाजा परिवार के सदस्यों के साथ वह टैक्सी कर सुबह 5 बजे दुमका पहुंची। मां ने कहा कि वह बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगी और परिवार के किसी सदस्य के मौजूदगी में ही ट्यूशन पढ़ाने की व्यवस्था करेगी।



## संक्षिप्त समाचार

## जनता दरबार के आवेदनों पर होगी शीघ्र कार्रवाई : डीसी



**पाकुड़ । (झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि) ।** उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने उपायुक्त के समक्ष रखी अपनी समस्याएं, जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं को उपायुक्त महोदय के समक्ष रखा। उपायुक्त महोदय ने क्रमवार तरीके से सभी की समस्याओं को सुनी एवं आश्वासन दिया कि उनके सभी शिकायतों की जल्द से जल्द जांच कराते हुए शिकायतों का समाधान किया जाएगा। फरियादियों की समस्याओं को लिखित आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को निवारण को लेकर अग्रसारित किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग राजस्व, आपूर्ति आदि से संबंधित आवेदन आये जिसे उपायुक्त महोदय ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया।

## बसंतराय में दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न

## ● श्रद्धालुओं ने नम आँखों से दी माता को विदाई



**बसंतराय । (झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि) ।** सामाजिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले बसंतराय में दुर्गा पूजा शांति पूर्वक संपन्न हो गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बसंतराय पर निगाह जमाए हुए थे।

प्रखंड मुख्यालय में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। गुरुवार को देर शाम भक्तों ने माता रानी को नम आँखों से विदाई दी। सुबह से ही दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ तैयारी की जा रही थी। दो वर्ष बाद इस बार बड़े उत्साह के साथ मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकली। बसंतराय प्रखंड मुख्यालय स्थित दुर्गा मंदिर में 9 दिनों तक मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के बाद गुरुवार संध्या को प्रतिमा का विसर्जन का कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। मां दुर्गा की जयकारे और ढोल दमकों की गूंज के साथ श्रद्धा और भक्ति के माहौल में प्रतिमाओं का विसर्जन प्रखंड मुख्यालय के ऐतिहासिक तालाब में हुआ। विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से माता की आरती उतारी। महिलाओं ने माता का श्रृंगार किया। उसके बाद पूजा अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। साथ ही उन्हें अगले वर्ष फिर से आने का निमंत्रण भी दिया। वहीं पूजा समिति की ओर से और प्रशासनिक पदाधिकारियों के बेहतर तालमेल से विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम विदाई देते नजर आए। विसर्जन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वहीं मां दुर्गा के जयकारे भी लगाते नजर आ रहे थे। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अहमदनगर बसंतराय में श्रद्धालुओं के बीच शरबत का विवरण भी हो रहा था। सभी लोगों को तिलक और गुलाल भी लगाया जा रहा था। 5 बजे संध्या से ही प्रतिमा को विसर्जन के लिए निकालने की तैयारी की जा रही थी। ताकि निर्धारित कार्यक्रम के तहत विसर्जन कार्यक्रम संपन्न किया जा सके। प्रतिमा विसर्जन में कमेटी के सदस्यों के साथ पुलिस प्रशासन के जवान मुस्तैदी के साथ सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे।

## जयकारों के साथ हुआ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन

**मेहरमा । (झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि) ।** ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत कई जगह स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा गुरुवार को गाजे-बाजे के साथ विसर्जन की गई, तो कहीं शुक्रवार को भक्तों ने नम आँखों से माता रानी की विदाई की। वहीं प्रखंड के रेशम नगर भगैया, माल मंडरो में स्थापित प्रतिमा शुक्रवार को विसर्जन किया गया। मेला समिति व आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने उपस्थित होकर प्रशासन की मौजूदगी में प्रतिमा का विसर्जन कराया।

## जमीन अधिग्रहण करने को लेकर चिलगो गांव में ग्रामीण, बीजीआर कंपनी और प्रशासन के बीच ग्राम सभा का आयोजन

(झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि)

**पाकुड़ ।** जिले के अमड़ापाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक के चिलगो गांव में शुक्रवार को पुनः ग्रामीण, बीजीआर कंपनी और प्रशासन के बीच ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इस ग्राम सभा में पुनर्वासि विस्थापन कोलोनी को लेकर जमीन अधिग्रहण करने को लेकर चिलगो में ग्राम सभा किया गया। इस ग्राम सभा में कोल कंपनी के द्वारा पुनर्वासि हेतु चिन्हित प्रस्तावित जमीन के बारे में लोगों को बताया गया। ग्राम सभा में उपस्थित रैयत जमीन मालिक से बातचीत किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं कोल कंपनी के समक्ष अपनी मांग रखी। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों को सारी सुविधा कंपनी को देना होगा। ग्रामीणों ने आवास, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधा की मांग रखी। रैयत जमीन मालिक से सहमती लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक उलखनन का कार्य करने नहीं दिया जायेगा।



इस बात पर कंपनी ने ग्रामीणों को बताया कि पुनर्वासि को लेकर

जमीन चिन्हित किया गया है जल्द ही आप लोगों सुविधा प्रदान किया

जायेगा। इस ग्राम सभा में बीडी-1ओ कुमार देवेश द्विवेदी, पुलिस

इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव, डब्ल्यूबीपीडीसीएल

जीएम, बीजीआर कोल कंपनी के अधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद थे।

## राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोबाइल एप्लीकेशन आधारित लाइन लिस्टिंग पर कार्यशाला

(झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि)

**देवघर ।** सदर अस्पताल सभागार, देवघर में सिल्वि सर्जन डॉ० जे० के० चौधरी की अध्यक्षता में शहरी बीटी-टी, सहिया एवं एएनएम की एफपी-एलएमआईएस, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों एवं भीबीडी कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया तथा राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोबाइल एप्लीकेशन आधारित लाइन लिस्टिंग तथा एम.एम.डी.पी. के बारे में एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया।

एफपी-एलएमआईएस के माध्यम से परिवार नियोजन की सामग्री का मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से संचारण किया जाता है, साथ ही मासिक रूप से इसका स्टॉक का अपडेशन होता है, परिवार कल्याण सामग्रियों का वितरण जानकारी अंकित किया जाता है, डॉ० जे के चौधरी द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में कार्यरत शहरी सहिया और शहरी एएनएम के माध्यम से परिवार कल्याण की विभिन्न सामग्रियों का वितरण योग्य व्यक्तियों को किया जाता है, साथ ही इसका समय बद्ध तरीके से रिकॉर्ड संचारित किया जाता है, एफपी-एलएमआईएस एप्लीकेशन पर डाटा को अपडेट किया जाता है, जिससे कि देवघर जिले में परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण और उपभोग कर्ता की संख्या में वृद्धि हो सके, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० सी के शाही के द्वारा बताया गया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत परिवार को नियोजित करने तथा नियोजित तरीके से परिवार को विकसित



करने का कार्य किया जाता है, साथ ही परिवार नियोजन होने से मातृ दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है, इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी योग्य दंपति को यूएचएडी और क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिला आरसीएच पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी एनयूएचएम डॉ० आलोक सिंह द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं है, इस प्रशिक्षण के पश्चात परिवार कल्याण सामग्रियों के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होनी आवश्यक है, पी एस आई इंडिया के सीनियर एप्लीकेशन लीड सुनील कुमार द्वारा बताया गया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से परिवार कल्याण सामग्रियों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा, राज्य परामर्शी सुदीप सान्याल द्वारा जन्म के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद भीबीडी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोबाइल एप्लीकेशन आधारित लाइन

लिस्टिंग, फाइलेरिया के प्रकार एवं इसके चरणों (स्टेज) की पहचान तथा इस रोग से उत्पन्न रूग्णता के प्रबंधन के पांच उपायों से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला भीबीडी सलाहकार डॉ० गणेश कुमार द्वारा लिंफोडिमा (हाथपांव) के सात चरणों की बारी-बारी से पहचान करने के तरीके तथा एक्वड अटैक आने पर इसकी जांच व इलाज से संबंधित जानकारी, इससे कैसे बचें तथा इसके लिए रोगी अपने आप को कैसे हाइजीन रखें, बैक्टीरियल एवं फंगल इन्फेक्शन आने पर इसके उचित देखभाल करने का तरीका, कौन-कौन से उचित व्यायाम है उसे करने के तरीके के साथ प्रभावित अंगों को कैसे एलीवेट (ऊंचा उठा) करके रखना तथा उपयुक्त माप के चप्पल-जूते का प्रयोग करने के तरीके के साथ प्रभावित जानकारी दिया गया। तत्पश्चात डीपीसी केयर-श्री संजय कुमार ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित फाइलेरिया से प्रसित सभी लोगों लाइन लिस्टिंग करने, सभी रोगियों का जियोटैगिंग करने, फोटो अपलोड करने तथा इस एप्लीकेशन

के अंतर्गत कुल इक्कीस पूठे जाने वाले जानकारियों को अद्यतन करने के बारे में विस्तार से बताया। इसके लिए सभी उपस्थित बीटी-टी, एएनएम एवं सहिया को इस मोबाइल एप्लीकेशन को संबंधित के मोबाइल में डाउनलोड कराते हुए उपयोग करने का तरीका प्रत्यक्ष रूप से बताया गया। जिसे फाइलेरिया दिवस - 11 नवंबर 2022 तक में देवघर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सभी मोहल्लों एवं वार्ड अंतर्गत फाइलेरिया रोगियों के घर जाकर भरते हुए अद्यतन किया जाना है। इस प्रशिक्षण में उपाधीक्षक सदर अस्पताल देवघर - डॉ० प्रभात रंजन, जिला भीबीडी सलाहकार - डॉ० गणेश कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक - नीरज कुमार भगत, जिला डाटा प्रबंधक - मुकेश कुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रवीण कुमार, जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील त्रिपाठी, डीपीसी केयर - संजय कुमार, सीआईएल इंडिया के राजेश कुमार तथा शहरी क्षेत्र में संचालित अटल मोहल्ला क्लीनिक एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम, शहरी सहिया, बीटीटी प्रशिक्षण में भाग लिया।

## अमड़ापाड़ा में धूमधाम से मनाया जाएगा लखी पूजा



**पाकुड़ । (झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि) ।** लखी पूजा को संपन्न कराने को लेकर लखी पूजा समिति के सदस्यों ने की बैठक। बैठक में सर्वसम्मति से लखी पूजा रविवार को हर साल की भांति इस साल भी धूमधाम से मनाने को लेकर चर्चा की गई। लखी पूजा के रात्रि में बच्चों के लिए सांस्कृतिक एवं किरा प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इस बैठक में उमानाथ प्रसाद उर्फ सोनू भगत, विकास कुमार भगत, गौतम कुमार, निखिल कुमार भगत, राज किशोर भगत, आदित्य कुमार, रितिक कुमार, मुकेश कुमार सहित सभी सदस्य मौजूद थे।

## मां दुर्गा की नम आँखों से विदाई दी गई



**हिरणपुर(पाकुड़) । (झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि) ।** हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण हिरणपुर बाजार में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन किया गया। हिरणपुर पुलिस की रही चाक चौबंद व्यवस्था। हिरणपुर मोयरा मोदक समिति, सेन दुर्गा मंदिर, शील दुर्गा मंदिर, एवं सार्वजनिक दुर्गा मंदिर आज हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन संपन्न हुआ। विसर्जन में सिंदूर खेल का भव्य प्रदर्शन की गई, वहीं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं माता को अंतिम विदाई के लिए सड़कों पर उतरी और हिरणपुर छठ पोखर तक आईं। विसर्जन को देखते हुए हिरणपुर पुलिस की हर पूजा पंडाल में चाक चौबंद व्यवस्था और चाक चौबंद व्यवस्था पर पैनी निगाहें तो थी ही चाक-चौबंद व्यवस्था और पैनी निगाहें तो थी ही, वहीं कमेटी भी पूजा कमेटी भी अपने वॉलेंटियर्स के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं रखे थे।

## बसंतराय में सीएचसी निर्माण के लिए ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

» एसडीओ ने सीओ को जल्द जमीन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

» सीओ ने कहा, सीएचसी के लिए बसंतराय में पर्याप्त जमीन उपलब्ध

**बसंतराय । (झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि) ।** करीब 6 माह पूर्व बसंतराय में डीएमएफटी मद से 30 बेटे वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने का निर्णय लिए जाने के बावजूद जमीन संबंधी विवाद के कारण मामला उठे बस्ते में पड़ा हुआ है। बसंतराय को प्रखंड बने एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस प्रखंड के लोग स्वास्थ्य सुविधा के लिए तरस रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय में सीएचसी बनवाने के लिए बसंतराय वारिसों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है। इस बीच ग्रामीणों की मांग पर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुताराज ने अंचल अधिकारी को प्रखंड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए जल्द जमीन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, अंचल अधिकारी ने कहा है कि प्रखंड मुख्यालय में अस्पताल निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है। बीते दिनों दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए अनुमंडल अधिकारी बसंतराय आए थे। मौके पर बसंतराय के ग्रामीणों ने पूरे विनम्र भाव से अनुमंडलाधिकारी श्री श्रुताराज के पास सीएचसी के लिए गुहार लगाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि सीएचसी बसंतराय तालाब के किनारे पिंड पर बनाया जा सकता है। अनुमंडलाधिकारी ने तमाम लोगों की बात को गंभीरता से सुनने के उपरांत अंचलाधिकारी बसंतराय को निर्देश दिया कि डीएमएफटी से स्वीकृत 30 बेटे के सीएचसी हेतु जमीन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। अनुमंडल अधिकारी के निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी ने कहा है कि प्रखंड मुख्यालय में सीएचसी निर्माण के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध है। एसडीओ से वार्ता के दौरान प्रखंड प्रमुख अंजर अहमद, स्थानीय जिला पार्षद मोहम्मद एहतेशाम उल हक, समाजसेवी मोहम्मद जमाल, लोकनाथ गुप्ता, सीताराम खेतान, मंसूर आलम समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। समाजसेवियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष जमीन की मापी के उपरांत सीओ ने बताया कि डीएमएफटी के द्वारा स्वीकृत 30 बेटे के निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन है। एक सवाल के जवाब में अंचलाधिकारी ने कहा चिट्ठी के आलोक में सीएचसी के लिए जितनी जमीन चाहिए वह उपलब्ध है।

## सीनियर और जूनियर बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन

जूनियर ग्रुप में गार्गी कुमारी ने प्रथम, पीहू कुमारी द्वितीय एवं तृतीय अनाया कुमारी स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया

(झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि)

**पाकुड़ ।** सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंदिर प्रांगण में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा सीनियर और जूनियर बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस नृत्य कार्यक्रम में प्रखंड के छोटे बड़े बच्चों ने भाग लिए। नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे बच्चियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार देवेश त्रिवेदी पुलिस इंस्पेक्टर से थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस नृत्य प्रतियोगिता में जूनियर ग्रुप में गार्गी कुमारी ने नृत्य में प्रथम, पीहू कुमारी द्वितीय एवं तृतीय अनाया कुमारी स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया। वहीं सीनियर



ग्रुप में आर्यन एंड अमन प्रथम, सिमी कुमारी द्वितीय, अमन कुमार तृतीय, नैना कुमारी चतुर्थ एवं शताक्षी श्रेया पंचम स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया। पेंटिंग प्रतियोगिता में जूनियर ग्रुप में अनु कुमारी पहला, कोमल कुमारी द्वितीय, ऋषभ तृतीय एवं

आयुषी कुमारी चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। सीनियर पेंटिंग प्रतियोगिता में निशांत प्रथम मानवी द्वितीय एवं आकाश कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सभी प्रतिभागियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार देवेश द्विवेदी एवं पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना

प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव एवं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बबलू भगत सामाजिक कार्यकर्ता कार्तिक कुमार के हाथों पुरस्कृत किया गया। मौके पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने इस प्रतियोगिता को सफल आयोजन करने में लगे रहे।

## पत्रकार के साथ मारपीट के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस रेस

(झारखण्ड देखो, प्रतिनिधि)

**गोड्डा ।** बुधवार की रात एक सोशल मीडिया के पत्रकार जय कुमार के साथ मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेस हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना की पुलिस छापेमारी कर रही है। बुधवार की रात अपने परिवार के साथ मेला देख कर लौट रहे पत्रकार के साथ शराब के नशे में धुत तीन युवकों ने बुरी तरह मारपीट की थी। इस मामले की जानकारी मिलते पर पत्रकारों के हित के लिए संघर्षशील योद्धा ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेल्फेयर एसोसिएशन (एआईएसएमजेडब्ल्यूए) के झारखंड एवं बिहार प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने गोड्डा के पुलिस अधीक्षक से बातचीत करत हुए आरोपियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के लिए अनुरोध किया था। श्री भाटिया के अनुरोध पर यहाँ के पुलिस कप्तान नाथू सिंह मीणा के आदेश पर पीडित पत्रकार की ओर से घटना के दूसरे दिन नगर थाना में मामला दर्ज किया गया। नगर थाना की पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। स्थानीय पत्रकारों ने एआईएसएमजेडब्ल्यूए के प्रभारी श्री भाटिया को इस मामले में त्वरित सज्ञान लेने के लिए धन्यवाद दिया है।





## संक्षिप्त समाचार

## सोशल मीडिया सर्वे में जगत जननी पूजा समिति अव्वल

- दुर्गा पूजा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए दिया गया सम्मान
- कालीपुर टाउन को द्वितीय एवं पुल पार दुर्गा पूजा समिति को तृतीय स्थान



**मधुपुर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** मधुपुर यूथ एवं मधुपुर मंच के द्वारा दुर्गा पूजा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सोशल मीडिया पर एक सर्वे कराया गया था। जिसमें मधुपुर के आम लोगों से उत्कृष्ट आयोजन के लिए सुझाव मांगे गए थे। सर्वे के परिणाम के अनुसार जगत जननी दुर्गा पूजा समिति न्यू कॉलोनी को प्रथम, कालीपुर टाउन दुर्गा पूजा समिति को द्वितीय, एवं पुल पार दुर्गा पूजा समिति को तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया। मधुपुर मंच एवं मधुपुर यूथ के सदस्य डॉ. संजय सिंह, अजीत आनंद, राशिद खान, पंकज तिवारी, इम्रतयाज अंसारी, मोहम्मद असलम, गौरव जयसवाल, कन्हैया श्रीवास्तव एवं गोल्डी खान ने विभिन्न पूजा समितियों के आयोजन स्थल पर जाकर उन्हें यह सम्मान सौंपा। सभी पूजा समितियों ने मधुपुर मंच एवं मधुपुर यूथ के द्वारा कराए गए इस सर्वे के लिए सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन से पूजा समितियों का मनोबल और बढ़ेगा और वे अगले वर्ष इससे भी अच्छा आयोजन करने का प्रयास करेंगे।

## एसडीओ ने रेलवे पंपू तलाब के जीर्णोद्धार को लेकर अभियंताओं की टीम के साथ किया निरीक्षण



**मधुपुर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने शहरी क्षेत्र में तालाब का जीर्णोद्धार को लेकर अभियंताओं की टीम के साथ स्टेशन रोड स्थित रेलवे पंपू तालाब का निरीक्षण किया और अभियंताओं को जीर्णोद्धार से संबंधित जानकारी ली। मौके पर नगर परिषद के सहायक अभियंता कृपाशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार के वर्जन टू योजना के तहत शहरी क्षेत्र के तालाब का जीर्णोद्धार करना है। कहा कि इसके पूर्व तालाब का निरीक्षण किया गया। कहा गया कि नगर विकास को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अगले महीने तक स्वीकृति होकर आ जाएगा। मौके पर सहायक अभियंता कृपा शंकर, कर्नाथ अभियंता दिलीप यादव आदि मौजूद थे।

## बीडीओ ने पंचायत के कई गांव में अपूर्ण आवासों का किया निरीक्षण



**मधुपुर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** मधुपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह ने धमनी पंचायत के हरला, धमनी गांव में अपूर्ण आवासों का निरीक्षण किया गया एवं साथ ही 15 दिन के अंदर आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उद्यमपुर पंचायत के फुलची गांव में भी निरीक्षण किया गया एवं जहाँ उन्होंने 15 दिन के अंदर आवास पूर्ण करने का निर्देश भी दिया और कहा कि पूरे प्रखंड में अब तक पूर्ण आवासों की संख्या निम्न प्रकार है 2016-2022 तक में कुल - 2203 है।

## कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति के बारे में अवगत कराया

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** समाहरणालय सभागार में उपयुक्त की अध्यक्षता में कृषि एवं संबंधित विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपयुक्त को जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति के बारे में अवगत कराया गया।

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत उपयुक्त दुमका द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रखण्ड अन्तर्गत किसानों को उक्त योजना का लाभ



देन हेतु प्रखण्ड में पदस्थापित प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, जनसेवक, पंचायत सचिव इत्यादि में प्रचार-प्रसार के माध्यम से किसानों को जागरूकता लाते हुए एवं नवपदस्थापित पदाधिकारियों

के सहयोग से प्रखण्ड में पदस्थापित प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक / जनसेवक को समन्वय स्थापित कर अक्टूबर माह के अंत तक बचे हुए लाभुक किसानों का ई के वाई सी प्रज्ञा केन्द्र में करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इसका लाभ किसानों को मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत उपयुक्त द्वारा कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि नवपदस्थापित पदाधिकारियों के सहयोग से प्रखण्ड में पदस्थापित प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक /

जनसेवक से समन्वय स्थापित कर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उक्त योजना का क्रियान्वयन कराते हुए लाभुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी से आच्छादित कराना सुनिश्चित करेंगे। उपयुक्त द्वारा परियोजना निदेशक, आत्मा, दुमका को निर्देश दिया गया है कि विगत पांच वर्षों में क्रियान्वित योजनाओं का बोज एवं उपादान वितरण की उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपयुक्त द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी दुमका को निर्देश दिया गया है कि दुमका जिले के अन्तर्गत प्रखण्डों में एक-एक नोडल लैम्स तैयार करवाना सुनिश्चित करेंगे।

## बीडीओ ने कार्यक्रम को लेकर किया समीक्षा बैठक

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** उपयुक्त के निदेशानुसार सदर प्रखण्ड दुमका के सभागार में 12 अक्टूबर से आयोजित आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के साथ समीक्षा बैठक किया गया। इस बैठक में आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी सभी को दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी को अपने-अपने पंचायतों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन,



मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, अक्टूबर को आयोजित किया जायेगा। फुलो - झानो आशीर्वाद योजना आदि समीक्षा बैठक में अंचल अधिकारी, दुमका, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, दुमका तथा अन्य कार्यालय सस्वा और पुराना दुमका पंचायत में 12 कर्मी उपस्थित थे।

## झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने चलाया सदस्यता अभियान

**झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** दुमका। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव निवास रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड माध्यमिक संघ का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है सदस्यता राशि को संगठन सोधे बैंक खाते में लेने की व्यवस्था की है। जिससे संगठन में पारदर्शिता बनी रहे। राज्य महासचिव के निदेशानुसार प्रखण्ड से प्रमंडल स्तर तक संगठन के विभिन्न पदों पर चुनाव कराया जायेगा साथ ही राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जायेगा। निवास रजक कहा कि जिले के संगठन के प्रतिनिधिमण्डल सभी उच्च विद्यालय में जाकर

विद्यालय समस्या को जानकारी लेगे उनके निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। सदस्यता अभियान में शिक्षक बढ चढ कर हिस्सा ले रहे हैं 500 शिक्षक/शिक्षिकाओं को सदस्यता अभियान में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ छात्र अनुपात में शिक्षक के पदस्थापन का विरोध करेंगे क्योंकि माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति विषयवार हुयी है न कि छात्र संख्या के हिसाब है जबकि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक के पद सृजित किए गए उसके हिसाब से शिक्षकों का पदस्थापन किया जाये। माध्यमिक शिक्षक संघ मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य के माध्यमिक शिक्षकों विभिन्न समस्या से अवगत कराने प्रयास करेंगे।

## 2 वर्ष की बच्ची के साथ 44 वर्षीय महिला लापता

**दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महुवा गांव की 44 वर्षीय महिला रेखा देवी विगत 4 अक्टूबर से अपने घर से बिना बताए गायब हो गई है। महिला के पति

संतोष सेन ने बताया कि उसकी पत्नी अपने साथ 2 वर्ष की बेटे की भी ले गई है। पीड़ित परिवार के द्वारा अपने सगे संबंधियों के साथ साथ अन्य सभी जगहों पर रेखा देवी की खोज की गई मगर उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल सका है। परिजनों ने प्रशासन से महिला तथा 2 वर्ष की नन्ही बच्ची की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है।

## बिहार के बांका में फाइनेल हो गई थी युवती की शादी

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**दुमका।** जर्मुंडी के भरतपुर गांव में गुरुवार की रात पेट्रोल कांड में जान गंवाने वाली युवती मारुति कुमारी की शादी के लिए घर पर तैयारी चल रही थी। उसकी शादी बिहार बांका में करीब-करीब तय हो चुकी थी। रविवार को ही इस पर फाइनेल मुहर लगनी थी। इससे पहले सनकी हत्यारे ने उसे हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। शुक्रवार को नगर थाने के सामने पुलिस जीप में बैठी नानी हीरा देवी और छोटी नानी इंदु देवी ने बताया कि नतीजा की शादी के लिए घर के सब लोग लगे हुए थे बांका में लड़के के घरवालों से सारी बात हो



चुकी थी, लड़का-लड़की भी देखादेखा हो चुका था। लड़का ने लड़की ने पसंद भी कर लिया था। केवल दान दहेज पर बात होनी बाकी थी। इसे

लेकर रविवार को घर के लोग बांका जाने वाले थे। यह बात राजेश को किसी तरह से पता चल गई। कुछ दिन से वह लगातार युवती का पीछा कर, उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। जबकि युवती उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बताया कि रात को करीब एक बजे उसने दरवाजा खटखटाया तो नातिन ने खोल दिया। दरवाजे पर दोनों में बात हुई और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के समय वह दूसरे बेड पर सो रही थी। नातिन को जलता देख बुझाने की कोशिश की तो एक हाथ भी कई जगह आग से झुलस गई। नानी इंदु देवी ने कहा कि जिस तरह से राजेश ने बेटे की जान ली है, उसी तरह से उसे भी मार देना चाहिए।

## लोगों को भाया आम आदमी पार्टी का निःशुल्क जल सेवा शिविर

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**देवघर।** जिला के मधुपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पसिया पंचायत स्थित ग्रामीण स्तर मेला में आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए जल सेवा शिविर लोगों को खूब भाया। आप के कार्यकर्ता मोहम्मद इरफान की अध्यक्षता में आयोजित निःशुल्क जल सेवा शिविर में सैकड़ों लोगों पहुंचे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए



पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ राजीव रंजन ने कहा की आम आदमी

पार्टी का गठन ही जन सरोकार से सम्बंधित समस्या का निराकरण के लिए हुआ है। मरीबों शोषित की आवाज है आम आदमी पार्टी। राज्य में इस तरह के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शिविर के आयोजन में सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में विकास कुमार, राजकुमार, ऐहशा-अंसारी तथा रवि रंजन ने अपनी महती भूमिका निभाई।

## आदिवासियों का नरसंहार कराना चाहता है झामुमो : सालखन



**जमशेदपुर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान (एसए) के केन्द्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने आरोप लगाया है कि झामुमो कुड़मी को आरक्षण का समर्थन देकर आदिवासियों का नरसंहार करवाना चाहता है। पार्टी की रणनीति आरक्षण से उत्तेजित होकर आदिवासियों को कुड़मी समाज से उलझाने की है। उन्होंने यह आरोप गुरुवार को कदमा स्थित निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लगाया। मुर्मू ने कहा कि ओडिशा में बीजू जनता दल और पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी कुड़मी समाज को वोट के लिए धड़का रही है। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी झारखंड मुस्लिम और ईसाई भाजपा से नाराज रहने वाले समुदाय हूँ, इसलिए वे झामुमो को वोट देते हैं। अगर कुड़मी का वोट भी झामुमो को मिल जाय तो उनकी सत्ता सुरक्षित हो जाती है, इसलिए उन्हें उकसाया जा रहा है। दूसरी ओर, माझी परगना महाल जैसे संगठन आदिवासियों का वोट उसे दिलाने का काम करते हैं।

## आखिर किनके आशीर्वाद से लंबे समय से अवैध बालू का कारोबार फल फूल रहा है



**मोहनपुर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।** थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित नदियों से अवैध बालू खनन का धंधा काफी समय से खूब फल फूल रहा है। माफियाओं द्वारा बंदरबाना और सिमरा नदी से इन दिनों अवैध बालू उठाव कर तस्करो द्वारा दोपुने से ज्यादा कीमत पर बेच रही है और इधर आम जनता बालू के लिए दर-दर भटक रही है। फिर भी उन्हें जरूरत के मुताबिक बालू नहीं मिल पा रहा है। इस समय मोहनपुर इलाके में बालू माफिया और बिचोलिए की बड़े-बड़े हो रही है। भले ही सरकार बालू के खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है लेकिन मोहनपुर क्षेत्र के विभिन्न नदियों से बालू खनन माफियाओं के आगे कोई मायने नहीं रखती। यही कारण है कि चाहे सरकार कोई भी हो अवैध खनन का धंधा पूरी तरह से फल फूल रहा है। इन दिनों नदियों का सीना चीर अपनी तिजोरी को भरकर सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। आखिर इस बालू अवैध खनन के पीछे कौन शामिल है। आखिर इन माफियाओं का किनका आशीर्वाद प्राप्त है। जो पुलिस की नाक के नीचे या कारोबार लंबे समय से चल रहा है फिर भी खनन विभाग के अधिकारी व पुलिस अधिकारी अंजन बन रहे हैं।

## अवैध संबंध के आरोप में ग्रामीणों की पिटाई से इमरान अंसारी की मौत

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

**बेरमो।** अवैध संबंध के आरोप में ग्रामीणों की पिटाई से बेरमो जिले में बेरमो अनुमंडल के महुआटांड थाना अंतर्गत धवैया ग्राम अंजुन के 47 वर्षीय सदर इमरान अंसारी की मौत गुरुवार की रात हो गई। उसे गुरुवार की देर शाम स्थानीय ग्रामीणों ने गांव की ही एक 30 वर्षीय दूसरे समुदाय की महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। उसके बाद उस महिला के स्वजातीय ग्रामीणों ने उसे पीटकर अश्रम करा दिया था। सूचना पाकर महुआटांड थाना की पुलिस पहुंची और उसे ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर रामगढ़ स्थित सदर



अस्पताल भेजा, जहां उपचार के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होने पर रांची स्थित रिस्स ले जाए

जाने के क्रम में दम तोड़ दिया। यह सूचना मिलते ही धवैया ग्राम में तनाव व्याप्त हो गया। इससे पहले

कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाता बेरमो के एसडीएम अनंत कुमार एवं एसडीपीओ

सतीशचंद्र झा ने काफी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर पलैंग मार्च किया और गांव में ही कैप किया। इमरान अंसारी अपने गांव में मनरेगा योजना के वेंडर का काम करता था। वह तीन पुत्र व एक पुत्री समेत कुल चार बच्चों का पिता था। उसकी पत्नी रहीमुन निशा वार्ड सदस्य हैं। जिस महिला के साथ नाजायज संबंध का उस पर आरोप लगा, वह भी शादीशुदा व बाल-बच्चों वाली है। मृतक इमरान अंसारी के पुत्र इजामामुल हक के बयान के आधार पर महुआटांड थाना में से दर्ज की गई प्रार्थमिकी में कुल 21 स्थानीय ग्रामीणों को हत्या का नामजद

आरोपित बनाया गया है, जिनमें 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही प्रशासन ने इस इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी है और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं, गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने धवैया ग्राम पहुंचकर लोगों से शांति व सौहार्द के वातावरण को कायम रखने की अपील की। इधर, दिग्गंत इमरान अंसारी के स्वजन अवैध संबंध की बात को नकारते हुए इस घटना को सोची-समझी साजिश के तहत हत्या किया जाना बता रहे हैं। पत्नी व बेटे सहित तीनों बेटों व अन्य स्वजनों ने रोते हुए प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार लगाई।



# आल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस गिरिडीह जिलाध्यक्ष ने किया प्रेस कांफ्रेंस आयोजित

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। आल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस गिरिडीह द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस तेलोडिह में किया गया जिसमें मोमिन कांफ्रेंस के युवा जिला अध्यक्ष सह मुखिया तेलोडिह पंचायत शम्बीर आलम, जिला महासचिव कैसर अली, प्रदेश महासचिव जैनुल अंसारी के द्वारा विगत 3 दिन पूर्व 4 अक्टूबर को एक घटना तेलोडिह के मस्जिद खुद्रा में घट गई थी। जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नियत से मस्जिद में घुसकर घृणित कार्य किया था, जिससे यहां की स्थिति काफी बिगड़ गई थी मगर मस्जिद के इमाम मोहम्मद अक़रम पिता मोहम्मद शफ़ीक, मुखिया सह मोमिन कांफ्रेंस के युवा जिलाध्यक्ष, सदर, सिक्रेटरी व सभी जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों तथा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के संयम, तत्परता एवं सज़ा बूझ से बड़ी



घटना होते - होते बची तथा पूरे शहर को सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचा लिया। आल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस के सभी पदाधिकारी गांडेय विधायक डा० सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जिला के उपायुक्त नमन प्रियेश

लकड़ा, पुलिस उपाधीक्षक अमित रेणु, एस डी एम विशालदीप खलको ए एस पी हारिश बिन जमा, डी एस पी वन संजय राणा, एस डी पी ओ अनिल सिंह, थाना प्रभारी पंचबा सोरव राज नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी तथा उन तमाम लोगों

का शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने शांति और सौहार्द बनाने में अपना योगदान दिया, तथा तथा पूरे गिरिडीह एवं झारखंड के समस्त नागरिकों से अपील करती है कि असामाजिक तत्व किसी भी धर्म या समुदाय के हों अगर किसी जगह पर कोई अग्रिय

या असहनीय घटना घटती है, तो संयम बरतते हुए भारत के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें ना कि मोब लिंगीज जैसी घटना को अंजाम दें। क्योंकि सभी धर्म एवं जाति से ऊपर इंसानियत का धर्म है। जिसे निभाना हमारा कर्तव्य है तथा हम एक बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। और हमारे भारत विश्व गुरु बन सकता है। इस कांफ्रेंस में पंचायत समिति सदस्य समशाद अंसारी, कौशर अंसारी, उष मुखिया अब्दुल कुदुस अंसारी, इकबाल अंसारी, ईस्लाम अंसारी, गुलाम रसूल, हकीद अंसारी, तस्लीम अंसारी, अब्दुल सत्तार आदि मौजूद रहे तथा तमाम मुसलमानों यह से अपील है कि आगामी 9 अक्टूबर को आने वाले त्योहार ईद मिलादुनबी को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाते हुए समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करें।

# ट्रान्सफॉर्मर खराब होने के कारण लोग अंधेरे में रहने को विवश



झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

करोँ। प्रखण्ड मुख्यालय अंतर्गत बघनाडीह पंचायत के नीचेटोला गांव में 63 केवी का ट्रांसफार्मर का दो फेज जल चुका है। जो मरम्मत के लायक नहीं बचा है। जिसके कारण गांव वाले लो वोल्टेज और अंधेरे में रहने को विवश है। स्थानीय ग्रामीण रोहित रंजन, प्रदीप भंडारी, सूरज कुमार

सिन्हा, प्रकाश मंडल, गणेश मंडल, मंतोष भंडारी, दिनेश भंडारी, चंदन ठाकुर, सुभाष मंडल, प्रभु ठाकुर आदि लोगों ने मधुपुर विद्युत विभाग को पत्र लिखकर अलिलंब समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। विगत कई महीनों से समस्या बरकरार होने के बावजूद विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रांसफार्मर को न बदले जाने को लेकर ग्रामीणों का रोष गहराता जा

रहा है। बिजली के अभाव में एक तरफ जहां लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, वहीं पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिन लोगों ने इनवर्टर लगा रखा है, उसकी बैट्री चार्ज न होने से शोपीस बन गई हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए लोगों को इधर-उधर की दौड़ लगानी पड़ रही। ग्रामीणों ने विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है।

# डेकोरेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ गिरिडीह आगमन

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। डेकोरेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिनंद झारखंड वरें को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। झारखंड टेट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन रांची के द्वारा आहूत 8 और 9 अक्टूबर को रांची में होने वाले प्रथम अधिवेशन सह प्रदर्शनी मेला में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। गिरिडीह जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों के द्वारा



अध्यक्ष का न्यू परिसदन भवन में

भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय

अध्यक्ष के द्वारा एसोसिएशन के

सभी साथियों को संगठित रहने की बात कही गई साथ ही साथ कल रांची में हो रहे अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में एसोसिएशन के सदस्यों को जाने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में झारखंड के सभी जिलों के डेकोरेशन एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन में डेकोरेशन लाइटिंग कैटरिंग सभी सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। नया परिषदन भवन में स्वागत समारोह में मुख्य रूप से गिरिडीह

जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुहम्मद पिरदी, संजय कुमार महासचिव, राजेंद्र बर्मन वरिय उपाध्यक्ष, विकास गुप्ता उपाध्यक्ष मोहम्मद सगीर सचिव, प्रितपाल सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, गगन लाल गुप्ता कोषाध्यक्ष, अनिल खंडेलवाल सह कोषाध्यक्ष, पवन कंधेव, राम जी यादव डेगन दास, कांग्रेस वर्मा, राजेश पंडित, दिलीप सिंह, के अलावे जिला डेकोरेशन एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।

# सभी सत्रह पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया जायेगा आयोजन

देवीपुर/झारखंड देखो./प्रतिनिधि।

बीडीओ अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 अक्टूबर से प्रखंड के सभी सत्रह पंचायतों में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ शिक्क में ऑन द स्पॉट लोगों को दिया जायेगा। 160 वर्ष से उपर सभी वृद्धों, 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं, बच्चे जवान हो चुके दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विवेकानन्द दिव्यांग स्वावलंबन योजनाओं को पेंशन की स्वीकृति दी जायेगी। धोबाना 12 अक्टूबर, बारावा 13 अक्टूबर, दरंगा 14 अक्टूबर, झुमबाद 15 अक्टूबर, बाघमारी 17 अक्टूबर, रामुडीह 18 अक्टूबर, भोपुर 19 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। इसको लेकर सभी विभागों प्रखंड अंचल थाना, कल्याण, बिजली, ग्रामीण विकास पेयजल स्वच्छता विभाग बाल विकास विभाग, मनरेगा, 15 वित्त, जनवितरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पनआरएलएम समेत सभी विभागों के अधिकारियों को जनता दरबार में उपस्थित रहने का निर्देश बीडीओ अभय कुमार ने दिया है।

# कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्राचार्य प्रो. रघुनाथ राय को दी श्रद्धांजलि

देवघर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मणिशंकर के पिता पूर्व प्राचार्य प्रो. रघुनाथ राय के ब्रह्मभोज में शामिल होने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री एवं भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री कृष्णा नंद झा, महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडेय, सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक गजेंद्र सिंह, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत, तथा अनुशासन समिति के अध्यक्ष बजेन्द्र सिंह एवं कांग्रेस के प्रदेश एवं विभिन्न जिलों के कई नेता एवं पदाधिकारी जसीडीह स्थित पागल बाबा आश्रम के पास उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं देवघर जिला कांग्रेस अध्यक्ष-सह-बीसूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जिला उपाध्यक्ष मुनम संजय के साथ देवघर जिला कांग्रेस परिवारने भी शांति भोज में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान राजेंद्र दास, प्रो. उदय प्रकाश, दिनेश कुमार मंडल, फैजाज केशर, अजय कुमार, दिनेशानंद झा, भावेश भूषण, शबाना खातून, रविंद्र मिश्रा, बैनी चौबे, प्रमिला देवी अनंत मिश्रा, आदित्य सोरलिया, गुलाब यादव, संजय चौधरी, मो नसीम, सयूब अंसारी, सुभाष मंडल, नटराज प्रदीप, नरेश यादव, रवि केशरी, मकशुद आलम, बाबा यादव, नजाबुल अंसारी, नैशाज अहमद, अनुराग आनंद, आफताब आलम, राजा साहिल, अश्विनी कुमार, अभिषेक दुबे आदि सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्राचार्य प्रो. रघुनाथ राय को दी श्रद्धांजलि

# संक्षिप्त समाचार

## नम आंखों से मत्तों ने दी दुर्गा माता रानी की विदाई



मोहनपुर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। प्रखंड के पंचरुखी, बालजोरा गांव में दुर्गा पूजा महोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। माता के विदाई के समय लोगों की आंखें छलक पड़े। 9 दिनों तक माताओं को पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद माता को विदाई करने में लोग सहज महसूस कर रहे थे। परंतु वर्षों से चले आ रहे रस्म निभाना ही पड़ता है। वहीं लोगों ने रस्म को पूरा करते हुए माता को फिर अगले साल आकर हम सबको दशन दीजिए कहते नजर आए। हम सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने माता को विदाई दी।

## नम आंखों से दी गई मातारानी की विदाई, विसर्जन जुलूस में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़



देवरी/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हुआ शारदीय नवरात्र दशहरा पर्व। कलाशस्थापन से लेकर विजयदशमी तक चलने वाला हिंदुओं के लोकप्रिय पर्व दशहरा जो बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है, जिसका समापन शांति पूर्ण तरीके से शुक्रवार को विसर्जन के साथ हुआ। इसी क्रम में प्रखंड के फतेहपुर स्थित दुर्गा मंडप में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया वहीं कुछ युवक डीजे के भक्ति गीतों पर जुलूस में झूमते हुए नजर आए। प्रतिमा विसर्जन नावाडीह स्थित काली आहार में नम आंखों से की गई। वहीं प्रखंड के देवरी, मनकडीहा, टेंगाडीह, रानीडीह, घोरंजी, मानीकबाद समेत सभी दुर्गा मंडपों में बाजे गाजे के साथ स्थानीय जलाशयों में मां दुर्गा की प्रतिमा का शुभ विसर्जन किया गया। वहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने में देवरी और भेलवाघाटी थाना पुलिस मुस्तेद दिखे। बता दें कि खबर लिखे जाने तक क्षेत्र में पूजा और मेले को लेकर किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है।

# 50 वर्षीय महिला से 2 पुलिसकर्मियों ने की हैवानियत

## गैंगरेप के बाद गुप्तांग पर लातों से हमला कर किया घायल

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा जिले के एक गांव में खेत में घास काटने गई एक 50 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दो पुलिस कर्मियों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना 4 अक्टूबर की देर रात की है, जब दो लोगों ने कथित तौर पर नशे में धुत होकर खेत में



उसके साथ मारपीट की। शिकायत में कहा गया है कि महिला अपने मक्का के खेत में घास काट रही थी जब दो पुलिसकर्मी वहां आए और उन दोनों पुलिसकर्मियों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और उसके गुप्तांगों में लात मारी, जिससे अत्यधिक खून बह रहा था। पुलिस

अधिकारियों ने कहा कि महिला के परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया और उसे गंभीर चोटों को देखते हुए अस्पताल ले जाया गया। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिस्स) में रेफर करने से पहले उसे पहले लोहरदगा सदर (जिला) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रांची रेंज के डीआईजी अनशी गुप्ता ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों की पहचान कृष्ण कंत तिवारी और अजय बारा के रूप में हुई है और आरोप की पुष्टि के बाद उन दोनों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किए जाने की संभावना है।

# धूमधाम से विसर्जित की गई माँ की प्रतिमा

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

देवीपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत दस दिनों से चलने वाले दशहरा महापर्व देवी दुर्गा की प्रतिमा का हवन विसर्जन के साथ हर्षोल्लास सम्पन्न हो गया। थाना क्षेत्र के मनियारपुर मोड़, भोजपुर, गौसलीडीह, अमडीहा, बुच्चो, कसाठी हुसैनाबाद, तिलौना, बंदगारी, बलनाडीह आदि सभी जगहों पर धूम-धाम के साथ माँ की प्रतिमा को अपने-अपने गांव के निकट तालाब व नदी में विसर्जन कर दिया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिलाएँ बच्चे शामिल हुए। माँ की विदाई से पूर्व सभी जगहों पर मेले का आयोजन किया गया। हजारों महिलाओं बच्चों पुरुषों



ने मेले में जमकर मिठाई, खिलौने की खरीदारी की। महिलाओं ने चाट गुपचुप चाउमींग आदि का लुत्फ उठाया। माँ दुर्गा पूजा को लेकर सभी स्थानों पर भव्य मेला का आयोजन किया गया। भोजपुर दुर्गा मंदिर में

विधायक नारायण दास, जिप सदस्य ममता देवी, प्रतिनिधि मुकेश यादव, मुखिया विभा देवी, पूजा समिति के अध्यक्ष कुंदन चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आस-

पास के सभी गांव के महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चे लोग मेला देखने आएँ। जहाँ सैकड़ों लोगों ने मेले में चाट, छोले, गोलगप्पा आदि का दुकान लगाया। सभी जगहों मेला स्थलों दुर्गा मंदिरों, विसर्जन स्थलों पर देवीपुर के थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह विभिन्न जगहों पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था कर रखा था। एसआई गौतम कुमार वर्मा, एसआई तिलेश्वर यादव पंचम कुमार शर्मा, भरथ सिंह, अकील अहमद, उषा कुमारी, संजय रजक सुधीर कुमार के साथ सुरक्षा बलों के साथ मौजूद थे। थाना प्रभारी सभी मूला स्थलों पर घुम घुम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए देखे गये।

# अमीरों का कर्जा माफ किया तो गरीबों का बिजली बिल भी माफ हो : माले

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। देश के अमीरों का कई लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया गया है, लेकिन गरीबों के यहाँ बकाया बिजली बिल को लेकर छापेमारी की जा रही है। अमीरों पर मेहरबान सरकार को गरीबों का बकाया बिजली बिल भी माफ कर देना चाहिए। उपरोक्त बातें भाकपा माले के राज्य कमिटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने, आगामी 11 अक्टूबर को डांडीडीह (गिरिडीह) जीएम कार्यालय के समक्ष बिजली बिल माफी को लेकर होने वाले आंदोलन की तैयारी क्रम में



सदर प्रखंड के पंचरुखी में अयोजित एक मीटिंग को सम्बोधित करने के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा

कि, बकाया बिजली बिल बढ़ने के लिए सीधे तौर पर झारखंड की पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है, जिसके

शासनकाल में लगातार बिजली बिल बढ़ाने का काम हुआ लेकिन उपभोक्ताओं को हर माह बिजली

बिल पहुंचाया नहीं गया इसकी अनभिज्ञता में ग्रामीण अपना बिजली बिल जमा नहीं कर पाए। अब वही बकाया बिल इतना ज्यादा हो गया है, जिसे कोई भी गरीब भुगतान करने में समर्थ नहीं है। बकाया वसूली के लिए विभाग का अभियान चलाया जाता है जिसके तहत बकाया बिल मामलों में गरीब उपभोक्ताओं पर भी भारी जुर्माना कर केस दर्ज किया जा रहा है। कई गरीबों ने अपनी आपबीती में बताया कि उन्हें कोर्ट से जमानत करने के लिए एकमुश्त बकाया बिल और जुर्माने की राशि जमा करने के लिए खेत बारी बंधक रखने या बेच देने की नौबत आ गई है। श्री यादव ने इस स्थिति को काफी

खुद और असहनीय बताया। उन्होंने सरकार से गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करने या उसमें जोड़े गए ब्याज की राशि को माफ कर कुल बकाया को 'हाफ' करने की मांग करते हुए लोगों से 11 अक्टूबर को बिजली विभाग के जीएम कार्यालय के समक्ष आंदोलन में भाग लेने का आ'न किया। आज की बैठक की अगुवाई माले नेता संजय चौधरी, संतोष राय, चांदी लाल हांसदा, रामेश्वर हेंब्रम आदि ने की, जबकि मुख्य रूप से मुखिया अर्जुन मरांडी, कृपा हांसदा, रिखू कोल, शिवलाल मुर्मू, सुखिन हांसदा, किस्तु हेंब्रम, कटौलाल हांसदा, जोपाल टूडू समेत अन्य महिला-पुरुष मौजूद थे।







## पेशानियों से निजात पाएं



आज की आपाधापी भरी जिंदगी में कुछ न कुछ तनाव जीवन से जुड़े ही रहते हैं जिन्हें आप खुद ही दायत देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप खरीदारी करने बाजार जाते हैं तो कुछ आवश्यक वस्तुओं को लाना भूल जाते हैं। ऐसे में आपको स्वयं पर झुंझलाहट होती है। यह भूल जल्दबाजी और हड़बड़ी के चलते होती है।

यह सिर्फ खरीदारी पर ही लागू नहीं होती बल्कि रोजमर्रा के जीवन में आप ऐसी चूक करते हैं। पेश हैं कुछ बातें जिन पर अमल कर आप व्यर्थ में परेशान होने से बचेंगे।

- घर से निकलने से पूर्व एक बार अपने पर्स का अवलोकन जरूर कर लें। यह देख लें कि जरूरी कागजात, पैसे, फोन डायरी आदि रखे हैं या नहीं।
- घर से निकलते समय फुटकर पैसे अपने साथ जरूर रखें।
- रोजाना काम में आने वाली कुछ वस्तुएं आवश्यकतानुसार इकट्ठी ही खरीदें।

- वांछित वस्तुओं की सूची बना कर ही खरीदारी के लिए निकलें। ऐसा करने से आप बाजार से जरूरी वस्तु लाना भूलेंगे नहीं।
- अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों और सह-कर्मियों के पते एवं फोन नंबरों को अलग-अलग नोट करके रखें।
- घर में गैर-जरूरी वस्तुओं को न रखें।
- खाना पकाने से पूर्व सभी आवश्यक खाद्य वस्तुओं को तैयार रखें।
- रसोई घर में सभी वस्तुओं को कायदे-करिने से रखें। अचार, मुराब्बा आदि को शीशे के जार में रखें। मसालों को भी प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बों में रखें।
- अपने पर्स में सदैव पैन, लिफाफा और पोस्टेज स्टैम्प जरूर रखें।
- घर में कुछ वस्तुएं जैसे रैपिंग पेपर, रिबन और चिपकाने वाली टेप आदि जरूर रखें।
- कौन-सा व्यंजन या डिश आप किस दिन बनाएंगी, इसके लिए योजना बना सकती हैं।
- अगर आपका बजट है तब माइक्रोवेव अवन खरीद लें। यह खाने-पीने की वस्तुओं को गर्म करने में मददगार सिद्ध होगा।
- घर में जूतेचप्पलों को एक निर्धारित स्थान पर ही रखें। इसी तरह बैल्ट, चाबियां आदि भी एक निर्धारित स्थान पर ही रखी जानी चाहिए।
- सुबह उठने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें। उठने के बाद दिनचर्या की योजना पर विचार कर लें कि आज मुझे अमुक कार्य करने हैं।
- रविवार के दिन वस्त्रों की अलमारी को सुव्यवस्थित करें। परिधानों को प्रैस करके रखें।

## चाँको जामुन

**सामग्री :** 300 ग्राम खोया (मसला हुआ), 50 ग्राम छेना (मसला हुआ), एक चुटकी सोडा बायो-कार्बोनेट पानी में भोगा, 4 टेबलस्पून मैदा (चलनी से छाना हुआ), 2 टेबलस्पून कोको पाउडर (चलनी से छाना हुआ), 1 टेबलस्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट (छाना हुआ), 5 कप चीनी, 3 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स (आवश्यकतानुसार), तलने के लिए घी

**विधि :** छेना हुए मैदा, कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट, भीगे हुए सोडा को मसले हुए खोया और छेना में डालकर अच्छी तरह मिलाकर आटा गूथें। ढाई कप पानी में चीनी गर्म कर पतली चाशनी बनाए

और उसे गर्म रखें। खोया मिश्रणसे किसी भी आकार के मुलायम बॉल तैयार करें। तो इन बॉल्स के अंदर चॉकलेट चिप्स भी भर सकती हैं। कढ़ाही में घी गर्म करें और कम आंच पर बॉल्स को सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। फ्राई करते समय बॉल्स के ऊपर सावधानी से कलछी की सहायता से घी डालती रहें। इन बॉल्स को घी से निकालकर चाशनी में डालें। गरमा गर्म सर्व करें।



## आप तैयार हैं हॉट-हॉट गर्मी के लिए

गर्मीयों को शीतल और सेहतमंद बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर गौर फरमाएँ -

- गर्मी के मौसम में नींबू पानी, नारियल का पानी और छाछ का सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए। ये न केवल शरीर को ठंडक पहुँचाते हैं, बल्कि जो पानी शरीर से पसीने के रूप में निकल जाता है, उसकी पूर्ति भी करते हैं।
- बहुत ठंडे पेय पदार्थ पीने से बचें। एकदम गर्मी में ठंडा पानी से कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, पर शरीर को ठंडक नहीं मिलती। इससे त्वचा की ब्लड वेसल्स पिचक जाती हैं जिससे शरीर से ताप कम निकल पाता है।
- इस मौसम में चाट-पकौड़ी खाने से बचें। चाट में उबले आलू का प्रयोग तो होता ही है, अगर यह आलू उसी दिन उपयोग में लाया जाए तो ठीक है अन्यथा दूसरे दिन इनको चाट में खाने से बीमारी को निमंत्रण देना है। दही-बड़े में दही तथा मावा आदि की भी यही समस्या है।
- कैफोनियुक्त चीजें और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन कम-से-कम करें। इनमें प्रिजर्वेटिव्स, रंग व शुगर की भरपूर मात्रा होती है। ये अम्लीय प्रकृति और डाईयूरिटिक होते हैं, जो शरीर से पानी मलमूत्र के रूप में निकालते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा भी

अधिक होती है जिसका प्रभाव पाचन पर पड़ता है। इससे शरीर में से मिनरल्स की मात्रा भी कम हो जाती है।

- कटे हुए फल विशेषकर तरबूज, खरबूजा, सड़े हुए पुराने फल या इनके जूस का कतई सेवन न करें। ताजा फल खरीदें। कटे हुए फल तुरंत उपयोग में लाएँ, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ज्यादा समय तक कटे हुए फलों को न रखें।
- खाने में पनीर की सब्जी या दूध से बनी सब्जी जैसे मलाई कोफ्ता आदि का सेवन करें। ये चीजें गर्मी में जल्दी खराब और संक्रमित हो सकती हैं।
- तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे बड़ा, पकौड़े, चिप्स, नमकीन, तेल व घीयुक्त भोजन से बचें, क्योंकि इनमें थर्मल इफेक्ट होता है, जो गर्मी उत्पन्न करता है।
- पानी अच्छी मात्रा में पिएँ। पानी शरीर को ठंडा बनाए रखने में मददगार होता है। पानी पीने से शरीर की गर्मी सही रूप से बाहर निकलती है। पानी शरीर को हाइड्रेट भी करता है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएँ। चाहे आप शारीरिक गतिविधियाँ करें या न करें। हाँ, लेकिन हर जगह का पानी पीने से बचें।

## घावों पर क्यों पड़ जाती है पस ?

बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार फोड़े-फुंसी होने या चोट वगैरह लगने के बाद जख्मों पर हल्के पीले-सफेद रंग का (कभी-कभी हल्का हरा-भूरा भी) द्रव जमाने लगता है जिसे 'पस' (मवाद) कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह क्यों और कैसे बनता है ? चलिए, आज इसी बारे में बात करते हैं। जब हमारे शरीर पर फोड़े-फुंसी हो जाते हैं या चोट आदि के कारण त्वचा कट-फट जाती है तो कई दफा सही तरह से देखभाल के अभाव में ऐसे खुले हिस्सों में बीमारियाँ फैलाने वाले बैक्टीरिया का संक्रमण होने लगते हैं। ऐसी स्थिति



में इन खतरनाक बैक्टीरिया से निपटने के लिए हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली काम करने लगती है। प्रकृति ने हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जैसे ही इस तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर को हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो हमारे रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएँ इन बैक्टीरिया से लड़कर इन्हें खत्म करने लगती हैं। शरीर पर घाव आदि होने पर ये श्वेत रक्त कोशिकाएँ बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए उसके आस-पास मोर्चा संभालकर घेराबंदी करने में जुट जाती हैं। जगम में घम आग दन त्रममों को मग

भगाने के लिए ऐसे स्थान पर सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में श्वेत रक्त कोशिकाएँ जमा हो जाती हैं। इस तरह, एक ओर बैक्टीरिया शरीर को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं और दूसरी ओर श्वेत रक्त कोशिकाएँ शरीर की रक्षा कर रही होती हैं। दोनों तरफसे जमकर 'युद्ध' होता है। इस लड़ाई में बहुत-से बैक्टीरिया मारे जाते हैं और कई श्वेत रक्त कोशिकाएँ भी 'शहीद' हो जाती हैं। इस दौरान मारे गए बैक्टीरिया और नष्ट होने वाली कोशिकाएँ पस के रूप में शरीर से बाहर आते रहते हैं। यह भी हमारे शरीर की एक खासियत है कि वह बेकार की चीजों को पसंद नहीं

करता और उन्हें जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर भेजने का प्रयास करता है। पस के मामले में भी यही होता है। बैक्टीरिया और कोशिकाओं का यह युद्ध लगातार तब तक चलता रहता है, जब तक कि फोड़े-फुंसी या घाव से सभी बैक्टीरिया का सफाया नहीं हो जाता। कई बार जब शरीर की इस प्रतिरोधक प्रणाली से भी बात नहीं बनती या बैक्टीरिया इस पर हावी होने लगते हैं तो हमें डॉक्टर की दी हुई दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। इन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर बैक्टीरिया के लच्छाभय से मुक्त होकर स्वस्थ होने लगता है।

## यूं करें त्वचा की देखभाल

### व्यूटी-मेकअप

यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि आपकी त्वचा तैलीय है, शुष्क है या सामान्य है। त्वचा की खास देखभाल के लिए अगर कुछ नियम अपनाना चाहती हैं तो ऐसे बहुत से कारक हैं जो योजना बनाने से पूर्व ध्यान में रखने चाहिए जैसे भोजन, उम्र, शारीरिक व्यायाम और सबसे अहम है जीवन पद्धति में बदलाव। इसी से त्वचा को खुराक, पोषण, बल और लालिमा मिलती है। निम्नलिखित उपायों को दिनचर्या में शामिल करके त्वचा की उपयुक्त देखभाल की जा सकती है।

### अगर आप टीनएज हैं तो

**समस्या का दायरा :** तेरह से उन्नीस वर्ष की अवस्था में ही त्वचा से संबंधित विकारों का आरंभ हो जाता है जिसमें चेहरा फुंसियों से भर जाता है। कई बार तो इन मुँहासों में से खून और पस भी रिसने लगती है। यह अंग्रेजी के शब्द T की तरह उत्पन्न होते हैं जैसे नाक और उसके कोने व माथा। यह तैलीय त्वचा पर अपना प्रभाव अधिक डालते हैं। कुछ टीनज में तो ब्लैक हैड्स, व्हाइट हैड्स, रोमछिद्रों में रूकावट आना, दाग बन जाना, अत्यधिक रूखापन आदि विकार उत्पन्न होते हैं।

### बचाव के लिए क्या किया जाए ?

टीनएज में प्रवेश करते ही सबसे सुंदर दिखने की चाह घर कर जाती है और पहला रूझान होता है व्यूटी पालर जाकर फेशियल करवाना जोकि बिल्कुल गलत है। इस उम्र में त्वचा बहुत ही नाजुक व कोमल होती है। वह स्वयं ही अपना रख-रखाव करने में सक्षम होती है। अतिरिक्त मसाज की आवश्यकता नहीं होती। इस उम्र में फेशियल करवाने से या तो त्वचा अत्यधिक तैलीय हो जाती है या रूखी-सूखी व बेजान।

ज्यादातर टीनज के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। उन्हें किसी अच्छे से व्यूटी पालर में जाकर प्रत्येक माह डीप क्लीन्ज अर्थात् त्वचा को शुद्ध करवाना चाहिए। व्यूटीफाइअर से अपनी त्वचा से संबंधित मास्क भी लगावाएँ।

## झुर्रियां भगाती है मैथी

- चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने की स्थिति में चेहरे पर मैथी के पत्तों का पेस्ट लगाएँ। रात को इस मिश्रण का लेप लगाकर रख लें व सुबह गुनगुने पानी से धो लें। फोड़े-फुंसियाँ होने पर भी आप यह उपाय आजमा सकते हैं।
- मैथी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। मैथी के बीजों में २३ प्रतिशत प्रोटीन, १ प्रतिशत तेल, १० प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसमें आयस व खनिज पदार्थ भी

पानी की घनिष्ठ मित्र बनें। दिन में कम से कम 3 बार फेसवाश से चेहरा धोएं जो आपकी त्वचा के अनुरूप हो। ऐसा करने से त्वचा चमकदार व तेजपूर्ण होगी।

### अगर आप अत्यधिक मेकअप का प्रयोग करती हैं तो-

**समस्या का दायरा :** अत्यधिक मेकअप से त्वचा में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे जलन पैदा होना, एलर्जी, मेकअप से संबंधित दागे आदि। त्वचा पर हर समय अगर भारी मेकअप किया जाए तो रोमछिद्र सांस नहीं ले पाते और वे बेजान हो जाते हैं। ऐसी त्वचा जब गंदगी व प्रदूषण के घेरे में आती है तो अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

### क्या करना चाहिए

अपनी त्वचा की सुनें। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भरपूर प्रयास करें। 20 साल की उम्र में त्वचा को ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। इस उम्र में ही कोल-मुँहासों से निजात पाई जा सकती है।

रात को सोने से पूर्व मेकअप को अच्छे से साफ करें। रात के समय ही त्वचा खुल कर सांस लेती है। नाइट क्रीम का इस्तेमाल अवश्य करें इससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि लाभ ही होता है। महीने में एक बार त्वचा का क्लीनअप अवश्य करवाएँ।

खाने में सतर्कता अवश्य लाएँ। इसका त्वचा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, खासकर उन महिलाओं में जो अत्यधिक मेकअप का प्रयोग करती हैं। त्वचा को पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ व पानी अहम भूमिका निभाते हैं।

### अगर आपकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ रही हैं-

- झुर्रियाँ पड़ने की स्थिति में चेहरे पर मैथी के पत्तों का पेस्ट लगाएँ। रात को इस मिश्रण का लेप लगाकर रख लें व सुबह गुनगुने पानी से धो लें। फोड़े-फुंसियाँ होने पर भी आप यह उपाय आजमा सकते हैं।
- अगर उल्टियाँ व दस्त लगे हों तो दूध के साथ मैथी के बीजों का सेवन करें। इससे पेशानी अवश्य दूर होगी।
- यकृत की कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु सुबह नाश्ते में उबले हुए मैथी के बीजों का सेवन करें। यह नुस्खा अपचन



**समस्या का दायरा :** जब त्वचा में प्राकृतिक लचक समाप्त होने लगती है तो झुर्रियाँ, आंखों पर काले घेरे, झाइयाँ, दाग, सूजन, अत्यधिक भार से त्वचा का झुकना या धंस जाना, लटकन आदि विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इन समस्याओं से उन महिलाओं को गुत्तरना पड़ता है जो गृहस्थीघर व जाँव का कार्यभार तो समुचित तौर पर सभालती हैं मगर अपने लिए कुछ पल निकालना उनके लिए नामुमकिन प्रतीत होता है।

### क्या करना चाहिए :

बढ़ती उम्र में फेशियलल और पील्स को त्वचा की जरूरत के रूप में अपनाएँ। विभिन्न प्रकार के फेशियल से चेहरे की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। व्यायाम से केवल शरीर ही नहीं त्वचा भी तंदरूस्त रहती है। रक का संचार पूर्ण रूप से होने से त्वचा व बालों का भी पूर्ण विकास होता है। रात को कम से कम 8 घंटे की निद्रा आवश्यक रूप से लें और दिन में 20 मिनट के लिए आराम अवश्य करें। इसका भी त्वचा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

को भी दूर करता है। कब्ज या पेट में अल्सर है, तो एक कप मैथी के पत्तों को उबालकर शहद में घोलकर खाएँ। इससे आपकी पेशानी दूर होगी। इस उपाय को आप बवासीर रोग में भी अपना सकते हैं।

■ एंजाइना का दर्द हो तो मैथी के बीज एक चम्मच की मात्रा में लें। इन्हें डेढ़ कप पानी में उबाले कर निधार लें। इसमें दो चम्मच डालकर दिन में दो दफा सेवन करें। दर्द से रहत मिलेगी। मैथी बालों को झड़ने से रोकने में भी सहायक है।

पीलिया के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत इलाज करवाना चाहिए। यदि यह बहुत बढ़ जाए, तो दिमाग को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए जरूरी है पहले ही सावधानी रखी जाए...

## फल खाएं पीलिया भगाएं

रैड ब्लड सैल्स रोजाना बनते व टूटते रहते हैं। इनके टूटने से बिलिरुबीन कैमिकल और आयसन निकलते हैं। आयसन हमारे शरीर में रह जाता है और दोबारा रैड ब्लड सैल्स बनाने में मदद करता है, जबकि बिलिरुबीन यूरिन व स्टूल्स के द्वारा शरीर में से बाहर निकल जाता है। यदि किसी कारण रैड ब्लड सैल्स ज्यादा टूटते हैं या बिलिरुबीन शरीर में से बाहर नहीं निकलता और वापस खून में आ जाता है, तो इनकी संख्या खून में बढ़ जाती है। खून में जब इनकी मात्रा एक मिग्रा फीसदी से ज्यादा हो जाती है, तो इसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं।

पीलिया वायरस से होने वाला रोग है। कई लोग इससे ग्रस्त तो नहीं होते, मगर इसके वाहक (कैरियर) होते हैं। रोगी व्यक्ति का खून स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देने से भी यह रोग हो जाता है। वायरस के अलावा शरीर में पित्त तत्व की मात्रा बढ़ने, अम्लता की वृद्धि, बहुत दिनों तक मलेरिया से ग्रस्त रहने, पित्त-नली में पत्थरी के अटक जाने, अधिक शराब, चाय, तम्बाकू, खट्टे पदार्थ, खाने, दिन में अधिक सोने व खून में लाल कणों की कमी होने से भी पीलिया हो सकता है।

पीलिया की पहचान पीलिया के वायरस के शरीर में प्रवेश करने के करीब एक महीने बाद इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लक्षण दिखाई देने से एक सप्ताह पहले ही रोगी के मल में वायरस निकलने लगते हैं। लिबर पर पीलिया का असर अधिक होता है। भूख लगनी बंद हो जाती है, जो मचलाने लगता है, कब्ज हो जाती है, शरीर थका-थका- सा रहता है। शारीरिक जांच करने पर लिबर कुछ बढ़ा हुआ महसूस होता है। यूरिन का रंग सरसों के तेल की भाँति पीला होता है। इसका कारण

यूरिन में बाइलीरुबिन का बढ़ जाना है। इन शुरुआती लक्षणों के प्रकट होने के करीब एक सप्ताह बाद पीलिया की चरम सीमा शुरू हो जाती है। इसके एक सप्ताह बाद से ये लक्षण कम होने लगते हैं और एक से डेढ़ मास के भीतर रोग ठीक हो जाता है। आमतौर पर अस्सी फीसदी रोगी ठीक हो जाते हैं, जबकि बीस फीसदी में यह रोग लंबे समय बाद ठीक होता है।

### रखें ध्यान

?? पानी को उबाल कर पीएँ। ?? चलने-फिरने से वायरस का दुष्प्रभाव लिबर पर अधिक होता है, इसलिए रोगी को दोतीन सप्ताह तक या जब तक रोग के लक्षण खत्म न हो जाएँ, तब तक बैडरैस्ट करनी चाहिए। कई बार खून में बाइलीरुबिन की मात्रा 20 फीसदी प्रति मिली. तक बढ़ जाती है। जब यह मात्रा एक से डेढ़ फीसदी प्रति मिली. से कम न हो जाए, तब तक आराम करना जरूरी है।

?? पाचन तंत्र को ठीक एवं सुपाच्य रखने पर विशेष ध्यान दें। प्रतिदिन तीन लीटर तक पानी पीएँ। पीलिया होने पर ग्लूकोज को मौसमी या संतरे के रस में मिलाकर पीने से फायदा होता है। गन्ने का रस सबसे अधिक उपयोगी है। मोठे फल और मोठे पेय भी हितकर हैं।

### ज्या खाएँ ?

पीलिया के रोगी को खाने के लिए गेहूँ, जौ या चने की रोटी दें। आटा मोटा भूसे समेत हो, तो अधिक लाभकारी है। मूंग, अरहर, मसूर या कुल्थी का सूप, चिकनाई निकाला हुआ तथा

निर्माण होता है, जो सर्वरोग नाशक, त्रिदोष नाशक, मेधा शक्ति, नेत्र शक्ति वृद्धिकारक होता है। शास्त्रोक्त विधि से हरडू का सेवन करने से रक्तातिसार, अर्श, नेत्र रोग, अजीर्ण, प्रमेह, पाण्डु आदि रोगों में लाभ होता है।

हरडू का लाभ लेने के लिए विभिन्न ऋतुओं में इसका इस प्रकार सेवन करें:

- वर्षा ऋतु में संधा नमक के साथ।
- शरद ऋतु में शक्कर के साथ।
- हेमंत ऋतु में सोंठ के साथ।
- शिशिर ऋतु में पीपल के साथ।
- वसंत ऋतु में शहद के साथ।

● पीपल ऋतु में शहद के साथ।

## सर्वरोग नाशक हरडू

हरडू अमृत से उत्पन्न फल है। यह सब रोगों का हरण करती है। अतः 'हरितकी' कही जाती है। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है- एक समय देवराज इंद्र अमृतपान कर रहे थे। अमृतपान करते समय उनके मुख से एक बूंद अमृत पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी गिरी हुई अमृत की बूंद से सात जाति वाली हरितकी उत्पन्न हुई। हरितकी की ये सात जातियाँ हैं- विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवती और चेतकी।

हरडू ऊष्ण वीर्य, आंखों के लिए लाभदायक, पाचन क्रिया सुचारु रूप से संचालित करने वाली, रोगों को दूर

करने वाली और आयुवर्धक होती है। इसके सेवन से श्वास, कास, प्रमेह, बवासीर, शोथ, पेट के कृमि, आवाज की खराबी, वमन, हिचकी, खुजली, यकृत, प्लीहा एवं पेट संबंधी व्याधियाँ नष्ट होती हैं।

हरितकी में मधुर, अम्ल, कटु, कषाय और तिक्त रस होते हैं, पर कषाय रस की अधिकता रहती है। अतः यह पित्त नाशक, कटु, तिक्त और कषाय रस होने से यह कफनाशक तथा अम्ल रस होने से वायु का भी शमन होता है। अर्थात् हरडू तीनों दोषों का शमन करती है। हरडू, बेहड़ा और आंवला का मिश्रण कर त्रिफला का

● पीपल ऋतु में शहद के साथ।



वर्क आउट करना बहुत अच्छा, लेकिन अधिक एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं

## सीरत कपूर

बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहर से ग्लैम, शोहरत और चमक से भरपूर है लेकिन हकीकत कभी-कभी बहुत अलग होती है। प्रसिद्धि और चमक के साथ, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक तनाव और दबाव भी आता है। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो इससे जुड़ी बातों शेयर करते हैं, और ऐसी ही एक विचारशील अभिनेत्री हैं सीरत कपूर। अभिनेत्री, जिसकी सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोविंग है, उनके पास अपने प्रशंसकों के साथ साझा करने के लिए हमेशा कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजे होती हैं।

सीरत जो फिटनेस के मामले में बहोत सतर्क है, हमेशा अपने एक्सरसाइज वीडियो साझा करती है और मानसिक स्वास्थ्य और इसके महत्व के बारे में बात करती देखी गई है।

बॉलीवुड उद्योग जिस मौजूदा दौर से गुजर रहा है इसे देखते सीरत कहती है, ऐसे आज कल के युवा जीवन के नुकसान को देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। आज, फिट होने का अर्थ गलत समझा गया है जो सिर्फ टॉड बॉडी तक सीमित हो गया है, लेकिन इसके साथ आपकी मेन्टल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है।

इस पर और बात करते हुए, सीरत कहती है वर्क आउट करना बहुत अच्छा है, लेकिन अधिक एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं होते और इससे कुछ भी हो सकता है और हम सभी को सावधान रहना चाहिए। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए, जो हम खुद से और दूसरों से कहते हैं। अपने आप को भावनाओं व्यक्त करना चाइये। एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील श्रोता बनें क्योंकि जीवन सभी के लिए कठिन है और हर कोई सीख रहा है कि कैसे सामना करना है और अपने आंतरिक संघर्षों से ऊपर उठना है। कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं और ना ही उनके हालात। तो आइए होशपूर्वक दूसरे के काम के मोर्चे पर, सीरत कपूर मारीच में तुषार कपूर और नसीरुद्दीन शाह के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेंगी।

## बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी कमल हासन की विक्रम

वैश्विक स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद सुपरस्टार कमल हासन की विक्रम एक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म 5-14 अक्टूबर तक होने वाले प्रतिष्ठित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (बीआईएफएफ) में प्रदर्शित की जाएगी।

विक्रम को ओपन सिनेमा थ्रेणो के तहत प्रदर्शित किया जाएगा, जो नई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्मों को मान्यता देती है जो लोकप्रिय और कलात्मक सिनेमा के बीच सही संतुलन बनाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कमल हासन और आर. महेंद्रन द्वारा निर्मित विक्रम इस साल की शुरुआत में 3 जून को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया और यूके में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म भी बन गई।

निर्देशक लोकेश कनगराज ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में एक अमर ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसने एक तारकीय स्टार कास्ट के साथ मिलकर विक्रम को 2022 की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक बना दिया। राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के सीईओ वी. नारायणन ने कहा, दुनिया भर में विक्रम की प्रतिक्रिया बेहद जबरदस्त रही है।

बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का पहुंचना एक और सफलता है और इसका चयन पूरी टीम के लिए एक जीत है।

हमें कुछ फिल्मों के साथ हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग पर गर्व है। दर्शकों के प्यार और प्रशंसा के लिए आभारी हैं।




## ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की निकलने वाली है फूक, जब भूत बनकर डराएगी कटरीना कैफ

कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के लीड रोल वाली फिल्म फोन भूत के चर्चे पिछले काफी दिनों से बॉलीवुड के गलियारों में हो रहे हैं। हालांकि, फिल्म को लेकर अभी तक कोई बड़ी कोई भी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। अब पहली बार फिल्म के बारे में डिटेल्स सामने आई हैं। इस फिल्म के किरदार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सामने आया है कि कटरीना कैफ फोन भूत में एक भूत का किरदार निभाने वाली हैं। यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म होगी। जानकारी सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है और फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मेकर्स ने पहले भी पोस्टरों के जरिए संकेत दिए थे कि एक्ट्रेस फोन भूत में एक भूत का किरदार निभाती हुई नजर आ सकती हैं।

फिल्म के मेकर्स ने पोस्टर शेयर करके साफ कर दिया है कि कटरीना कैफ ही भूत का रोल निभाने वाली हैं। ईशान ने भी अपने अकाउंट पर भी शेयर करके ऐसा इशारा दिया है। उन्होंने लिखा, चुड़ैल ने डायल कर के बताया।

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई वजहों से मेकर्स ने रिलीज डेट को पोसपोन कर दिया और अब ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म 4 नवंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत इस फिल्म का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है।

कटरीना कैफ के वर्कफ्रंट की कर्तों तो वो फिल्म फोन भूत के अलावा टाइगर प्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म टाइगर 3 में अभिनेता सलमान खान के साथ मुख्य किरदार नजर आने वाली हैं। इस फिल्म अभिनेत्री पाकिस्तानी एंजेल के रोल में दिखाई देंगी, जबकि सलमान खान रॉ एंजेल की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रीराम के निर्देशन में बनी रही फिल्म मैरी क्रिसमस में साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। कटरीना कैफ को आखिरी बार फिल्म सूर्यवंशी में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार भी मुख्य किरदार में थे।



## पोन्नियिन सेलवन-1 ने तीन दिनों में की 200 करोड़ रुपये की कमाई



निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेलवन 1, जो इसी नाम से प्रख्यात लेखक कल्कि की साहित्यिक क्लासिक पर आधारित है, ने अब तक दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई कर ली है। इसके निर्माताओं ने सोमवार को ये घोषणा की।

लाइका प्रोडक्शंस, जिसने निर्देशक मणिरत्नम की मद्रास टॉकीज के साथ संयुक्त रूप से समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सुपरहिट फिल्म का निर्माण किया है, ने सोमवार को एक पोस्टर के साथ, जिसमें कहा गया था कि फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये की कमाई की है, ने ट्वीट किया, आगे बढ़ रहे हैं और इतिहास बना रहे हैं! हम अपने उन सभी दर्शकों का दिल से आभार प्रकट करते हैं, जो हम पर प्यार बरसा रहे हैं! अपने आस-पास के सिनेमाघरों में पीएस1 देखें! फिल्म ने महज तीन दिनों में इतनी बड़ी कमाई कर ली है।

यह फिल्म तमिल सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन दुनिया भर में 80 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। पोन्नियिन सेलवन 1, जिससे काफी उम्मीदें थी, शुरुवार को प्रशंसकों ने इसका जोरदार स्वागत किया।

फिल्म ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि यह कल्कि के साहित्यिक क्लासिक पर आधारित है। पोन्नियिन सेलवन, जिसका पहला भाग शुरुवार को रिलीज हुआ, राजकुमार अरुण मोझी वर्मन के प्रारंभिक जीवन पर आधारित एक कहानी है, जो बाद में महान राजा चोजन के रूप में जाना जाने लगा।

मणिरत्नम के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म में अभिनेता विक्रम, ऐश्वर्या राय, तुषा, कार्ती, जयम रवि, जयराम, पार्थिवन, लाल, विक्रम प्रभु, जयराम, प्रभु और प्रकाश राज सहित कई शीर्ष सितारे हैं। यह फिल्म देश में अब तक की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है और यह प्रख्यात लेखक कल्कि द्वारा तमिल क्लासिक पोन्नियिन सेलवन पर आधारित है।

## ऋचा चड्ढा और अली फज़ल का लखनऊ शादी समारोह एक शाही अवधी अंदाज़ में दिखा!

ऋचा चड्ढा और अली फज़ल जाने-माने डिज़ाइनर अबू जानी और संदीप खोसला द्वारा डिज़ाइन किए गए अपने वस्त्रों में शाही लग रहे हैं। इस लिबास में दोनों ने एक-दूसरे से मैच कर रहे थे, अली ने पैन्ल वाले गोल्ड और बेज शेरवानी पहनी हुई है और ऋचा ऑफ व्हाइट आउटफिट में नजर आईं।

यह जोड़ा लखनऊ के लिए रवाना हुआ, जहां ऋचा के नाम पर अली के परिवार द्वारा एक शाम के कार्यक्रम आयोजन किया गया। शाम की शुरुआत राजस्थान के साबरी ब्रदर्स द्वारा ऊर्जा से भरपूर कव्वाली प्रस्तुति के साथ हुई। सजावट अवधी लखनवी संस्कृति की प्रशंसा में थी जिसमें सुनहरे कस्टम मेड ड्रेप्स, झुमर कैंडल होल्डर थे।

भोजन को लखनऊ के एक हेरिटेज परिवार द्वारा संचालित होटल लेबुआ द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, जिसमें महमूदाबादी द्वारा विशेष व्यंजन तैयार किए गए थे, जो एक अन्य पारंपरिक परिवार संचालित खानपान कंपनी है जो इस क्षेत्र के विशिष्ट व्यंजन बनाने में महारत है।

## फिल्म विक्रम वेधा को मिल रही प्रतिक्रिया से ऋतिक रोशन खुश

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन, जो फिलहाल अपनी हाल ही में रिलीज हुई दो-नायकों वाली फिल्म, विक्रम वेधा को मिली प्रतिक्रिया से खुश हैं, ने कहा है कि वह अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करते हैं वह भूमिका को बेहतर ढंग से निभाएं, और बार-बार सीन को रिहर्स करते हैं। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्हें कलाई पर काले धागे के पीछे की कहानी बताते हुए देखा जा सकता है। अपने वीडियो को कैप्शन देते हुए, अभिनेता ने लिखा, इसके जाने का समय आ गया है।

मुझे नहीं पता कि मैंने यह कब करना शुरू किया। या फिर क्यों। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने हर उस किरदार के लिए गुपचुप तरीके से ऐसा किया है जिससे मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा कि 2019 की एक्शन फिल्म वॉर में कबीर के उनके कैरेक्टर के लिए यह शुरू हुआ, जो फिर से संयोग से दो-हीरो वाली फिल्म थी, ज्यादातर यह एक लाल मौली (कबीर ने पहनी थी) और कभी-कभी यह एक काला धागा होता है। यह भी याद नहीं है कि मैंने इसे कब शुरू किया था। क्या यह कहीं ना प्यार है... था? या कोई मिल गया या बहुत बाद में? (उन फिल्मों में वापस जाकर मेरी कलाई या गर्दन की जांच करनी होगी) क्योंकि यह मैंने प्लान नहीं किया था।



## स्किन टोन की वजह से मान्या सिंह को दो साल तक नहीं मिला काम

फेमिना मिस इंडिया 2020 की उपविजेता मान्या सिंह अब सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 16 में नजर आएंगी। उन्होंने जीवन में अपने संघर्षों और अपनी त्वचा के रंग के कारण उद्योग में कोई काम नहीं मिलने के बारे में विस्तार से बात की। एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी होने के नाते, उनके लिए जीवन कभी आसान नहीं रहा और उन्होंने मेजबान से कहा कि उनके पिता अभी भी एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां एक लोकल ट्रेन में यात्रा करती है क्योंकि वे नहीं चाहती कि उन पर अधिक बोझ पड़े।

मिस इंडिया 2020 की उपविजेता बनने से पहले मान्या को छह साल तक संघर्ष करना पड़ा था। उसने जोर देकर कहा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि इन प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद जीवन आसान हो जाता है लेकिन वास्तविकता अलग है

और वह दो साल तक बिना काम के रही। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि मिस इंडिया बनने के बाद जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। मेरे पास दो साल से कोई काम नहीं था। या तो त्वचा की टोन या किसी अन्य कारण से, मुझे बताया गया था कि आपको काम नहीं मिल सकता है।

उन्हें जवाब देते हुए, सलमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस शो में उनके अभिनय के बाद उन्हें निश्चित रूप से अच्छा काम मिलेगा और उनके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही मान्या ने सलमान को रैंप वॉक करना भी सिखाया। उनके अलावा, शो में अन्य प्रतियोगी निमृत कौर अहलवालिया, अब्दु रोजिक, शालिन भनोट, अंकित गुप्ता, प्रियंका चाहर चौधरी, सुबुल तौकीर और कई अन्य हैं। कलर्स पर प्रसारित होता है बिग बॉस 16।